

## प्रेस नोट दिनांक 12-11-2021

### थाना सरसावा पुलिस द्वारा ग्राम चन्दपुरा में चाय बीडी के ढाबे के मालिक पर हत्या का प्रयास करते हुये तमंचे से फायर करने वाले अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ मोटर साईकिल व अवैध असलहा/कारतूस सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.11.2021 को थाना सरसावा क्षेत्र के ग्राम चन्दपुरा में चाय बीडी के ढाबे पर तीन अज्ञात बदमाशों ने ढाबा मालिक पर हत्या का प्रयास करते हुये तमंचे से फायर कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मुकदमा मु0अ0सं0 387/2021 धारा 307,504,506 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसके सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद स0पुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, स0पुर के आदेशानुसार, क्षेत्राधिकारी नकुड व थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था। दिनांक 11.11.2021 को उ0नि0 श्री पदम सिंह सैनी व उ0नि0 श्री रईस अहमद ने मय हमराह फोर्स के उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त शबनूर पुत्र स्व0 जमील नि0 ग्राम खजूरहेडी थाना नकुड, जनपद सहारनपुर को बाद पुलिस मुठभेड़ मय अवैध तमंचा मय कारतूसो व एक अदद चोरी की मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस नं0 एचआर 06 एल-6479 के साथ समय करीब 22.00 बजे जंगल ग्राम झबीरन से गिरफ्तार किया गया। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के दो अन्य साथी मौके से फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 391/2021 धारा 307,414,465 आईपीसी व मु0अ0सं0 392/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शबनूर पुत्र स्व0 जमील नि0 ग्राम खजूरहेडी थाना नकुड, जनपद सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर।

2. एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस नं0 एचआर 06 एल 6479

#### अभि0 शबनूर का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 0387/2021 धारा 307,504,506 आईपीसी थाना सरसावा, सहारनपुर।

2-मु0अ0सं0 0391/2021 धारा 307,414,465 आईपीसी थाना सरसावा, सहारनपुर।

3-मु0अ0सं0 0392/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर।

4-मु0अ0सं0 248/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री पदम सिंह सैनी, थाना सरसावा, स0पुर।

2. उ0नि0 श्री रईस अहमद, थाना सरसावा, स0पुर।

3. है0कां0 639 मुकेश यादव, थाना सरसावा, स0पुर।

4. है0कां0 221 संजीव, थाना सरसावा, स0पुर।

5. है0कां0 503 बालेन्द्र राणा, थाना सरसावा, स0पुर।

6. कां0 1535 रोहित मान, थाना सरसावा, स0पुर।

7. कां0 1466 सूरज कुमार, थाना सरसावा, स0पुर।

8. कां0 1019 राजीव कुमार, थाना सरसावा, स0पुर।

## प्रेस नोट दिनांक 12-11-2021

### थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 ग्राम अवैध स्मैक, तोलने का कांटा व 990/-रूपये बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में नशा तस्करो के विरुद्ध चलाये ज आरहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, स0पुर व क्षेत्राधिकारी नकुड, स0पुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.11.2021 को समय 16.25 बजे थाना सरसावा पुलिस द्वारा ग्राम बिडवी पुल से ग्राम चन्दपुरा के रास्ते से अभि0 साबिर पुत्र लियाकत नि0 ग्राम चन्दपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को 06 ग्राम स्मैक नाजायज, तोलने का कांटा व 990/-रु0 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 389/2021 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

2.साबिर पुत्र लियाकत नि0 ग्राम चन्दपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

1-.06 ग्राम स्मैक।

2-तोलने का कांटा।

3-990/-रु0 नगदा।

#### अभि0 साबिर का अपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 0389/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना – सरसावा, सहारनपुर।

2-मु0अ0सं0 0429/2020 धारा 379,411 आईपीसी थाना – नकुड, सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1.उ0नि0 श्री पदम सिंह सैनी, थाना सरसावा, स0पुर।

2.उ0नि0 श्री रईस अहमद, थाना सरसावा, स0पुर।

3.है0कां0 639 मुकेश यादव, थाना सरसावा, स0पुर।

4.है0कां0 221 संजीव, थाना सरसावा, स0पुर।

5.है0कां0 503 बालेन्द्र राणा, थाना सरसावा, स0पुर।

6.कां0 1535 रोहित मान, थाना सरसावा, स0पुर।

7.कां0 1466 सूरज कुमार, थाना सरसावा, स0पुर।

8.कां0 1019 राजीव कुमार, थाना सरसावा, स0पुर।

8.कां0 1019 राजीव कुमार।

# प्रेस नोट दिनांक 12-11-2021

माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर श्री आकाश तोमर के मार्गदर्शन में आज दिनांक: 12.11.2021 को श्री साईं सेवा परिवार के अध्यक्ष श्री सौरभ बब्बर जी सहारनपुर के द्वारा यातायात पुलिस के सहयोगार्थ दोपहिया वाहन चालकों को सडक सुरक्षा/यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु घंटाघर चौक पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अतुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा आम जरूरत मन्द के लिये निःशुल्क 100 हेलमेट वितरण किये गये। इस दौरान निरीक्षक यातायात श्री मनीष कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री उमेश रोरिया, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती मोनिका चौहान द्वारा एवं टीएसआई संजय कुमार द्वारा भी हेलमेट वितरण किये गये।

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12-11-2021

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 11-11-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा तीतरो मोड गोही रोड से अभि० हिमांशु पुत्र राजकुमार निवासी मौ० छत्ता कस्बा व थाना नानौता, सहारनपुर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 306/21 धारा 60(1)ख आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा अवैध डोडा पोस्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 11-11-2021 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा माजरा धर्म कांटा से अभि० 1-मुकर्रम पुत्र इकराम निवासी मौ० बन्नी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर 2-आमिर पुत्र मुस्तकीम निवासी मौ० काजिस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर को 04 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु०अ०सं० 356,357/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को०देहात पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 11-11-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा बडी जामा मस्जिद ग्राम रसूलपुर से अभि० आमिर पुत्र अनवर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना को०देहात, सहारनपुर को 430 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 576/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
सहारनपुर।